

ॐ

~~~~~

विद्या भवन,बालिका विद्यापीठ,लखीसराय ।

कक्षा-नवम्

विषय- हिन्दी

दिनांक—09/07/2020

व्याकरण पुनरावृत्ति

~~~~~

卐 सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया 卐

मेरे प्यारे बच्चों, शुभ प्रभात!

आपका हर दिन खुशियों से भरा हो!

प्यारे बच्चों इस वैश्विक महामारी ने हमारे जीवन में उथल-पुथल तो मचाया ही है, बहुत कुछ परिवर्तन भी कर के रख दिया है। ऐसे देखा जाये तो परिवर्तन संसार का नियम है और जो परिवर्तन को सहज रूप से स्वीकार कर लेता है, वही जीवन में खुश रहता है, सफल होता है।

हम लोग अभी आपदा-विपदा से उबर नहीं पाए हैं और इससे उबरने की दूर-दूर तक कोई संभावना भी नजर नहीं आ रही है।

खैर.....

CBSE ने आपके पाठ्य क्रम को परिस्थिति के अनुसार आपकी सुविधा के लिए थोड़ा कम कर दिया है। जिन पाठों को हटाया गया है वे निम्नलिखित हैं।

एन सी इ आर टी पर आधारित

विषय - हिंदी (कोर्स 'अ')
विषय कोड - 002

कक्षा नौवीं – पाठ्यक्रम के निम्नलिखित पाठ हटा दिए गए हैं -

क्षितिज, भाग-1	काव्य खंड	<ul style="list-style-type: none">• कबीर – साखियाँ व सबद पाठ से सबद-2• सुमित्रानंदन पंत – ग्राम श्री• केदारनाथ अग्रवाल - चंद्रगहना से लौटती बेर• सर्वेश्वर दयाल सक्सेना - मेघ आए• चंद्रकांत देवताले – यमराज की दिशा
	गद्य खंड	<ul style="list-style-type: none">• श्यामाचरण दूबे – उपभोक्तावाद की संस्कृति• चपला देवी – नाना साहब की पुत्री देवी मैनाको भस्म कर दिया गया• महादेवी वर्मा – मेरे बचपन के दिन• हज़ारीप्रसाद द्विवेदी – एक कुत्ता और एक मैना
कृतिका, भाग-1		<ul style="list-style-type: none">• फणीश्वरनाथ रेणु - इस जल प्रलय में• शमशेर बहादुर सिंह - किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया

अतः आज से नए पाठ्य क्रमानुसार हम लोग पाठन-पाठन करेंगे।

आज हम लोग समास के बारे में पुनः जानेंगे।

आपने पिछली कक्षा में पढ़ा कि **‘जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और इस मेल के कारण जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं’** उसी तरह **‘जब दो या दो से अधिक**

संबंधित शब्दों के मेल से एक नए शब्द की रचना होती है तो रचना की इस प्रक्रिया को समास कहते हैं।'

सामासिक पद या समस्त पद -:

‘समास में दो शब्दों के मेल से बने शब्द को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं ।’

जैसे -: राजा का कुमार = राजकुमार

समास विग्रह--:

‘जब समस्त पद को मूल शब्दों से अलग किया जाता है, तो ऐसा करना समास विग्रह कहलाता है;

जैसे -: राजकुमार = राजा + कुमार

समास विग्रह के प्रत्येक शब्द **पद** कहलाते हैं । इनमें से पहला पद **पूर्व पद** और बाद वाला पद **उत्तर पद** कहलाता है।

शेष अगली कक्षा में

धन्यवाद

कुमारी पिंकी “कुसुम”